

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जून 2025 — आषाढ़ 2, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जून 2025

अधिसूचना

क्रमांक VIGI-29021/6/2024-GAD-1.- यतः, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) के अनुसार, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा कि केन्द्र सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से तथा राज्य के हित में विहित करें, स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के अंतर्गत, राज्य सरकार, स्वैच्छिक आधार पर “आधार” का उपयोग करने के लिए अनुमति की वांछा कर सकती है;

अतएव, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 सहपठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) के निबंधनों में, भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कार्यालयीन ज्ञापन एफ. क्र. 13(11)/2023-EG-II, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 के द्वारा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, को दी गई अनुमति की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, ऑनलाईन आवेदन के समय वन टाईम रजिस्ट्रेशन हेतु आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अभ्यर्थियों के e-KYC विवरण को सुरक्षित रख सकेगा एवं परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान व अधिप्रमाणन के लिए स्वैच्छिक रूप से, e-KYC आधार की वांछा कर सकेगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अविनाश चम्पावत, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जून 2025

क्रमांक VIGI-29021/6/2024-GAD-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक VIGI-29021/6/2024-GAD-1, दिनांक 19-06-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 23rd June 2025

NOTIFICATION

File No.: VIGI-29021/6/2024-GAD-1.- Whereas, in accordance with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016), allows performing authentication on a voluntary basis for such purpose, as the Central Government, in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe, Under the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the State Government, may seek permission to use “Aadhaar” on a voluntary basis;

Now, therefore, the State Government, hereby, notifies that the Chhattisgarh Public Service Commission, Nava Raipur may seek e-KYC Details of the candidate through Aadhaar authentication for one time registration at the time of online application and may require e-KYC Aadhaar on a voluntary basis for identification and authentication of the candidate during the examination, subject to the conditions of permission granted to General Administration Department, Government of Chhattisgarh, through the competent authority of the Government of India (Ministry of Electronics and Information Technology) vide OM F. No. 13 (11)/2023-EG-II, dated 8th October, 2024 in terms of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the “Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016).

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.